

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 1979/ज्येष्ठ 28, 1901
No. 249] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 18, 1979/JYAISTHA 28, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 347 (अ).—सं. इ(सी)ओ, 1977/ए.एम(118).—आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते
हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने
के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 31वां संशोधन आदेश की संज्ञा दी
जाए।

2. निर्यात (निर्यात) आदेश 1977, खूले सामान्य लाइसेंस सं. 3 में कालम 4 की क्रम सं. 20 के सामने निर्दिष्ट नीति का निम्नीलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"कौयला निर्यात, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता द्वारा किए गए आरक्षणों के मद्दे केवल कलकत्ता और शिलांग से निर्यातों की अनुमति प्रदान की जाएगी।"

[मिसिल सं. 11/30/77/ई 1]

सी. वेंकटरमन,

मुख्य निर्यात, आयात-निर्यात का कार्यालय

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND
CO-OPERATION**

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 18th June, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 347(E). No. E(C)O. 1977/AM(118).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty first Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977 in OGL the policy shown against S. No. 20, Column 4, may be submitted by the following :—
"Export allowed only from Calcutta and Shillong against allocations made by the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta".

[Issued from file No. 11/30/77/E1]

C. VENKATARAMAN,

Chief Controller of Imports and Exports.